



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक 1932 (श0)
(सं0 पटना 744) पटना, सोमवार, 8 नवम्बर 2010

सं0 3ए-3-भत्ता-01/2009-12500

वित्त विभाग

संकल्प

4 नवम्बर 2010

विषय:—राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से 35 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत मंहगाई-भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-4225 वि0(2), दिनांक 20 अप्रैल 2010 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2010 के प्रभाव से 35 प्रतिशत की दर से मंहगाई-भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका भुगतान माह जनवरी 2010 से पुनरीक्षित वेतन के साथ किया जा रहा है।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय झाप सं0-1(6)/2010-EII (B) दिनांक 22 सितम्बर 2010 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से मंहगाई-भत्ता की दर 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है । तदनुसार राज्य सरकार के कर्मियों को देय मंहगाई-भत्ता की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-

(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01 जुलाई 2010 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 35 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत की दर से मंहगाई-भत्ता का भुगतान किया जाय।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड-पे के योग पर मंहगाई भत्ता आकलित किया जायगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायगा।

(iii) मंहगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायगा।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई-भत्ते की राशि का भुगतान नगद किया जायगा।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई-भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मदन मोहन प्रसाद,

विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 744-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>